

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 09.03.2023

चोरी के अभियोगों से सम्बन्धित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 02 अदद चोरी के इंजन बरामद (थाना कन्धई)-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाकर अपराध/अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना कन्धई से उ0नि0 श्री राहुल कुमार मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को थाना क्षेत्र के इटवा बाजार नहर पुलिया के पास से मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 58/23, 59/23 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को मय घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर 01 और अभियुक्त अखिलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया व उसके घर से चोरी के दो इंजन बरामद किया गया तथा बरामदगी के आधार पर अभियोग उपर्युक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई। बरामद वाहन को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

01. राजेन्द्र कुमार सरोज उर्फ मंगल पुत्र जमुना प्रसाद सरोज नि0ग्राम उतरास थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
02. अखिलेश कुमार पुत्र शीतला प्रसाद नि0ग्राम गहरीचक थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया गया कि दिनांक 08/09. 03. 2023 की रात्रि में दो इंजन ग्राम सभा उतरास के खेतों से अपने साथियों के साथ मिलकर चुराया था।

बरामदगी:-

चोरी के दो इंजना
घटना में प्रयुक्त वाहन टाटा इन्टा वी30 नं0 यूपी 72 बीटी 2738।

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री उ0नि0 श्री राहुल कुमार मय हमराह थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना बाघराय)

जनपद के थाना बाघराय के उ0नि0 श्री सचिन पटेल मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 15/23 धारा 325, 504, 506, 354ख, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त नवीन उपाध्याय उर्फ तरुन उपाध्याय पुत्र रामसमुझ उपाध्याय नि0ग्राम पदमनाथपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र भिटारा तिराहा, पेट्रोलपम्प के पास से गिरफ्तार किया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार (थाना लीलापुर)

जनपद के थाना लीलापुर के उ०नि० श्री सुनील कुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अ०सं० 346/21 धारा 323, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त जावेद पुत्र मो० अंसार नि० समशेरगंज थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।